

खाता क्र. Account No. 10635250025
0171 2050542

रसीद क्र. 780592
Receipt No. SD/A 76

रु. 500000/-
Rs.

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

शाखा (Branch) गुल्बर्गा - 2204
भारत (India)
Pin-580 101 - 03472 - 20633/21154

पुनर्निवेश योजना
Reinvestment plan
विशेष सावधि जमा रसीद
Special Term Deposit Receipt
अहस्तांतरणीय Not transferable

Received from Karnataka Peoples' Education Society's C.P. Ed. से
आज की तिथि से College महीने बाद कुरुक्षेत्र Village प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित
Payable to Regional Director SRE को
देय जमा के रूप में Rupees Five lakhs Only (Joining)

As a deposit repayable 120 Months after date with Interest at the rate of 5.5 percent per annum
दिनांक Date 29 DEC 2003 देय तिथि Due on 29-12-2013.

खाता बही पृष्ठ Ledger Folio
पीछे दी गई शर्तों के अधधीन -
Subject to conditions overleaf

परिमत्ता पर देय राशि
Amount payable on maturity
रुपये 863 385
Rupees

V.K. HEGNE
H.680

कृते भारतीय स्टेट बैंक
For State Bank of India
प्रबंधक / शाखा प्रबंधक Manager / Branch Manager

नवीकरण का विवरण / PARTICULARS OF RENEWAL

नवीकरण के समय At the time of renewal								नवीकृत विशेष भावार्थ रसीद की परिपक्वता पर On maturity of renewed STDR.				
नवीकरण सं. Renewal No.	तारीख Date	नवीकृत विशेष सावधि खा. सं. A/c No. of the Renewed STDR	ख. घ. L.F.	किस तारीख से नवीकृत w.e.f. (Date)	नवीकृत राशि Amount Renewed	नवीकरण की अवधि Period of Renewal	व्याज दर % प्रतिवर्ष Rate of Interest % p.a.	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	आपसरा Initials	उपचित व्याज Accrued Interest	परिपक्वता राशि Maturity Amount	आपसरा Initials
1 वा 1 st	2000/06/21	821567		29/12/2013	2000671	9%	29/12/2013			2000671		
2 वा 2 nd	31/03/2020			29/12/2023	821567	9.00%						
3 वा 3 rd		Subject to deduction of Tax at										
4 वा 4 th		source as per section 194A of										
5 वा 5 th	29/12/13	821567		10 yr 9%	29/12/2023					2000671		

- (1) इस जमा राशि पर _____ % वार्षिक दर से साधारण व्याज दिया जाता है। (1) This deposit earns simple interest at _____ % per annum.
- (2) व्याज को तिमाही अंतरालों पर पुनर्निवेश किया जाएगा। (2) Interest will be reinvested at quarterly rests.
- (3) परिपक्वता की तिथि पर मांग न किये जाने पर या अन्य कोई विपरीत अनुदेश प्राप्त न होने पर जमाकर्ता को P. Revathi Reddy के द्वारा नवीकृत किया जाएगा / कर दिया जाता रहेगा। (3) In the absence of a demand or instruction to the contrary on the date of maturity, the deposit will be renewed / continued to be renewed for similar period at the then prevailing rate of interest.
- (4) भुगतान करने या नवीकरण के विवरण नोट करने के लिए जमाकर्ता(ओं) द्वारा यह रसीद विधिवत पृष्ठांकित करके भेजी जानी चाहिए। (4) This receipt should be duly endorsed by the depositor(s) for payment or noting of details of renewal.

नवीकरण / भुगतान के लिए उम्मीदवार _____ जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

(कृपया मुद्रित विकल्पों में सामने तिथि सहित हस्ताक्षर करें) _____ Discharge for renewal / payment _____ Signature of the depositor(s).

(बंद करने हेतु) व्याज सहित भुगतान प्राप्त किया _____ (Please sign against the printed option with date).

(नवीकरण हेतु) कृपया _____ को अवधि के लिए फिर से नवीकरण करें। _____ (For closure) Received payment with interest.

(For renewal) Please renew for a further Period of _____

